

SRU STEELS LIMITED

CIN: L17300DL1995PLC107286
 Regd. & Corp. Office: A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, New Delhi-110052
 Ph: 011-27373622 E-mail: srusteels@yahoo.in
 Website: www.srusteels.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 30th day of May, 2019, at the Registered and Corporate Office of the Company at A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, New Delhi-110052, inter alia to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the company for the Quarter and year ended March 31, 2019.

Further in terms of Company's Code of Conduct (Code) framed Under The SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the Securities of the Company, shall remain closed from April 1, 2019 to June 1, 2019 (both days inclusive) for all the Designated persons (as defined in the said code).

The said intimation is also available on the website of the company at www.srusteels.in and on the website of the stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019 Diksha Gandhi
 Place: New Delhi Company Secretary

Ltd.
 09594
 01206

UFL
 CIN: 261765

Regd. Office: Pursuant
 to the Listing
 Regulations, 2015, a
 meeting of the Board
 of Directors of the
 Company will be held
 on Thursday, the 30th
 day of May, 2019, at
 the Registered and
 Corporate Office of
 the Company at A-48,
 1st Floor, Wazirpur
 Industrial Area, New
 Delhi-110052, inter
 alia to consider, approve
 and take on record the
 Audited Financial
 Results of the company
 for the Quarter and
 year ended March 31,
 2019.

Further in terms of
 Company's Code of
 Conduct (Code) framed
 Under The SEBI
 (Prohibition of Insider
 Trading) Regulations,
 2015, the trading
 window for dealing in
 the Securities of the
 Company, shall remain
 closed from April 1,
 2019 to June 1, 2019
 (both days inclusive)
 for all the Designated
 persons (as defined in
 the said code).

The said intimation is
 also available on the
 website of the company
 at www.srusteels.in and
 on the website of the
 stock Exchange viz.
 BSE Limited at
www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019
 Place: New Delhi

Diksha Gandhi
 Company Secretary

Board of Directors
 of the Company

will be held on
 Thursday, the 30th
 day of May, 2019,
 at the Registered and
 Corporate Office of
 the Company at A-48,
 1st Floor, Wazirpur
 Industrial Area, New
 Delhi-110052, inter
 alia to consider, approve
 and take on record the
 Audited Financial
 Results of the company
 for the Quarter and
 year ended March 31,
 2019.

Further in terms of
 Company's Code of
 Conduct (Code) framed
 Under The SEBI
 (Prohibition of Insider
 Trading) Regulations,
 2015, the trading
 window for dealing in
 the Securities of the
 Company, shall remain
 closed from April 1,
 2019 to June 1, 2019
 (both days inclusive)
 for all the Designated
 persons (as defined in
 the said code).

The said intimation is
 also available on the
 website of the company
 at www.srusteels.in and
 on the website of the
 stock Exchange viz.
 BSE Limited at
www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019
 Place: New Delhi

Diksha Gandhi
 Company Secretary

Board of Directors
 of the Company

will be held on
 Thursday, the 30th
 day of May, 2019,
 at the Registered and
 Corporate Office of
 the Company at A-48,
 1st Floor, Wazirpur
 Industrial Area, New
 Delhi-110052, inter
 alia to consider, approve
 and take on record the
 Audited Financial
 Results of the company
 for the Quarter and
 year ended March 31,
 2019.

Further in terms of
 Company's Code of
 Conduct (Code) framed
 Under The SEBI
 (Prohibition of Insider
 Trading) Regulations,
 2015, the trading
 window for dealing in
 the Securities of the
 Company, shall remain
 closed from April 1,
 2019 to June 1, 2019
 (both days inclusive)
 for all the Designated
 persons (as defined in
 the said code).

The said intimation is
 also available on the
 website of the company
 at www.srusteels.in and
 on the website of the
 stock Exchange viz.
 BSE Limited at
www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019
 Place: New Delhi

Diksha Gandhi
 Company Secretary

Board of Directors
 of the Company

will be held on
 Thursday, the 30th
 day of May, 2019,
 at the Registered and
 Corporate Office of
 the Company at A-48,
 1st Floor, Wazirpur
 Industrial Area, New
 Delhi-110052, inter
 alia to consider, approve
 and take on record the
 Audited Financial
 Results of the company
 for the Quarter and
 year ended March 31,
 2019.

Further in terms of
 Company's Code of
 Conduct (Code) framed
 Under The SEBI
 (Prohibition of Insider
 Trading) Regulations,
 2015, the trading
 window for dealing in
 the Securities of the
 Company, shall remain
 closed from April 1,
 2019 to June 1, 2019
 (both days inclusive)
 for all the Designated
 persons (as defined in
 the said code).

The said intimation is
 also available on the
 website of the company
 at www.srusteels.in and
 on the website of the
 stock Exchange viz.
 BSE Limited at
www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019
 Place: New Delhi

Diksha Gandhi
 Company Secretary

Board of Directors
 of the Company

will be held on
 Thursday, the 30th
 day of May, 2019,
 at the Registered and
 Corporate Office of
 the Company at A-48,
 1st Floor, Wazirpur
 Industrial Area, New
 Delhi-110052, inter
 alia to consider, approve
 and take on record the
 Audited Financial
 Results of the company
 for the Quarter and
 year ended March 31,
 2019.

Further in terms of
 Company's Code of
 Conduct (Code) framed
 Under The SEBI
 (Prohibition of Insider
 Trading) Regulations,
 2015, the trading
 window for dealing in
 the Securities of the
 Company, shall remain
 closed from April 1,
 2019 to June 1, 2019
 (both days inclusive)
 for all the Designated
 persons (as defined in
 the said code).

The said intimation is
 also available on the
 website of the company
 at www.srusteels.in and
 on the website of the
 stock Exchange viz.
 BSE Limited at
www.bseindia.com.

For SRU Steels Limited
 Sd/-
 Date: May 20, 2019
 Place: New Delhi

Diksha Gandhi
 Company Secretary

Board of Directors
 of the Company

IO SYSTEM LIMITED

Regd. Office: Global Knowledge Park, Plot No.19A & 19B, Sector-125, NOIDA-201 301 (U.P.)
 CIN: L65921UP1987PLC008764
 E-mail: iosystemltd@gmail.com

NOTICE

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("LODR Regulations"), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, 30th May, 2019 inter-alia** to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019, pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

The audited results of the Company, once approved by the Board, shall be available on the website of the Company at www.iosystem.co.in and the BSE website www.bseindia.com

for IO System Limited

Sd/-

(Arun Seth)

Director

Place: Noida

Date: 20.05.2019

DIN: 00007895

RIBA TEXTILES LIMITED

DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post Office, New Delhi - 110019
 CIN: L18101DL1989PLC034528
 Tel: +91-26213012 / 26236986
 Fax: +91-26465227

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to provision of regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) regulations 2015, Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 28th May, 2019 at 02.00 p.m. at Kishore House, Assandh Road, Panipat-132103, Haryana to consider, approve and take on record the Audited Financial results along with Audit Report of the Statutory Auditor, for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2019. The Company has already closed its 'Trading Window' under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, including all amendments thereof, and the Insider Trading code of the company of Riba Textiles Limited from 3rd April 2019 and it will open after the end of 48 hours after the results are made public on 28th May 2019.

The said notice is also available on the Company's Website www.ribatextiles.com and the website of Stock Exchange- BSE Ltd. www.bseindia.com.

For Riba Textiles Limited

Sd/-

(Neha Dubey)

Place : New Delhi

Date : 20.05.2019

Company Secretary

M. No.: A46655

NISHANT INBUILD LIMITED

CIN: L74899DL2006PLC145669

Regd. Off.: Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi-110007
 Email ID: inbuildnishant@gmail.com; Tel: 09999841041

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 30th May, 2019 at 5.30 P.M. at the Regd. Office of the Company, at Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi - 110007, inter-alia to consider and take on record the company's Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2019.

For Nishant Inbuild Limited

Sd/-

RAMAN KUMAR

Date : 20.05.2019

Place : Delhi

Company Secretary/Compliance Officer

K M SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: 11-Moti Bhavan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)
 Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow-226010(U.P.)
 CIN No.: L15421UP1971PLC003492, Mail id:- kmsugar@gmail.com, cs@kmsugar.com
 Phone -Regd. Office :0512-2310762, Corp. Office: 0522-4079561

NOTICE FOR BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 29th day of May, 2019 at 12.00 hrs (noon) at Hotel Hyatt Regency, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226001 Uttar Pradesh 226010, inter-alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter/year 31st March, 2019.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window shall remain closed for the Directors, Promoters, Officers and designated employees of the Company from 22nd May, 2019 to 31st May 2019 for dealing in the securities of the Company.

The said notice may be assessed on the Company's website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com including Audited quarterly/yearly financial results after approval by the Board.

By order of the Board

For K. M. Sugar Mills Ltd.

Pooja Dua

Place: Lucknow

Dated: 20.05.2019

Company Secretary & Compliance Officer



GRAVITA
 INDIA LIMITED

Regd. & Works Office: 'SAURABH', Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi-Malpura Road, Teh: Phagi, Jaipur - 303 904
 CIN : L29308RJ1992PLC006870

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 28th May, 2019** at corporate office of the company inter alia, to consider and take on record the Audited Financial Statements of the Company for the Quarter/Year ended 31st March, 2019 and consideration and recommendation of Final Dividend, if any, for the Financial Year 2018-19, subject to approval of shareholder at the upcoming Annual General Meeting.

The further details related to above mentioned intimations are also available on Company's website www.gravitaindia.com and on website of Stock Exchanges i.e. NSE- www.nseindia.com and BSE- www.bseindia.com.

By order of the Board

Sd/-

Nitin Gupta

(Company Secretary)

FCS : 9984

Place : Jaipur

Date : 20th May, 2019

**ANDHRA BANK**

Branch : Gomti Nagar Extn, Lucknow-226010
 (Telephone No's -0522-2390777)

POSSESSION NOTICE-(FOR IMMOVABLE/MOVABLE PROPERTY)**RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT RULES) 2002**

Whereas, The under signed being the Authorized Officer of Andhra Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002(Act 54/02) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of Act 54/02 read with rule 2 of the Security Interest Act (Enforcement Rules) 2002, ANDHRA BANK issued a demand notice detailed hereunder upon the under mentioned borrower calling upon to repay the amount mentioned in the notice and given hereunder against their names within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules mentioned hereunder. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Andhra Bank, (Branch-Gomti Nagar Extn, Lucknow), Uttar Pradesh for the amounts due from the borrower and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DETAILS OF THE NOTICE/BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR AND DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Sl. No.	Name of the borrowers/ Co-obligant/Mortgagor	Details of property (All that part and parcel of the property consisting of)	Date of notice under Sec 13(2)
			Date of possession
			Amount demanded

HCL TECHNOLOGIES

Corporate Identity Number: L74140DL1997PLC000001
 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110028
 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201301
 Telefax: +91 11 26436336
 Website: www.hcltech.com E-mail ID: investor@hcltech.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following equity shares of Rs. 2/- each issued by the Company are stated to have been lost, stolen or destroyed and the Company is proceeding to issue the duplicate share certificates in lieu thereof.

Name of the Shareholder(s)	Folio No.	Certificate No.
MAVVS Murthy	8867	294926
		9354
Warde Sanjay Manohar	58770	295266
Warde Kshama Sanjay		
Vijay Kumar Varma	11096	291539
S Varma		
Dr Queen Baba Saxena	201618	292411
		301618
Dr Rajiv Krishna Saxena	201617	301617

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the above share certificates, shall be deemed to have lost the same and shall be deemed to have accepted the above share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing with the above share certificates. Any person dealing with the above share certificates shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent:

Alankit Assignments Limited
 (Unit: HCL Technologies Limited)
 205-208, Anarkali Complex
 Jhandewalan Extension,
 New Delhi-110055

Date: May 20, 2019

Place: Noida (U.P.)

AMBIT AGRO INDUSTRIES

हा
हे
वे
दे
द्व

Reg

Pur
201
Com
Offi
Road
Aud

Date
Place

फोन:

जबकि
हित क
मध्य)
हित (प्र
करते ह
दिल्ली-
सेक्टर-
(साझेद
श्रीमती
तरुण हि
गुप्ता (च
आशीष
दिल्ली-